

**प्रेस नोट थाना गगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 19-09-2021**

**काजल हत्याकाण्ड का एक वाञ्छित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पुर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्गदर्शन व पुलिस उपाधीक्षक बांसगांव के नेतृत्व में अमित कुमार दूबे प्रभारी निरीक्षक थाना गगहा मय हमराही कर्मचारीगण के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित में गगहा बाजार में मामूर था कि मुखबीर खास आकर मिला व बताया कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त सुबाष प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा, गोरखपुर इस समय हाटा बाजार के बड़गो मोड़ पर खड़ा होकर वाहन के इंतजार में है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर मैं प्रभारी निरीक्षक हमराही कर्मचारीगण को मुखबीर खास की बात से अवगत कराते हुए मुखबीर खास के साथ मय हमराही कर्मचारीगण के प्रस्थान कर हाटा बाजार, के बड़गो मोड़ से कुछ दुर पहले ही मुखबीर खास ने नारंगी रंग का शर्ट व पैन्ट पहने हुए व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुए बताया कि साहब यही सुबाष प्रजापति है, मुखबीर खास वही से हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले नारंगी रंग का शर्ट व पैन्ट पहने हुए व्यक्ति के पास पहुंचे तो हम पुलिस वालो को अचानक देखकर हड़बड़ा गया कि हम पुलिस वाले मौके पर ही पकड़ लिये। नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सुबाष प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा, गोरखपुर बताया। बकायादा बाजफता जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से आधार कार्ड की छाया प्रति, बरामद हुई जो सुबाष प्रजापति की है। तथा बाये जेब से 120 रुपया नगद बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए व माननीय न्यायालय द्वारा जारी एन बी डब्लू से अवगत कराते हुए समय करीब 08.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया अभियुक्त उपरोक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

सुबाष प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गगहा, गोरखपुर\_सम्बन्धित मु0अ0सं0 0324/21 धारा 302/323/504/307/394/452/120बी भादवि0

**गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –**

हाटा बाजार बड़गो मोड़ दिनांक 19-9-2021 समय करीब 08.45 बजे

**गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्मचारी-**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार दूबे थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 2- का0 विजय कुमार यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 3-का0 रमेश प्रसाद थाना गगहा जनपद गोरखपुर